

साई बाबा भजन-बंगलिया मेरी ऐसी बनवइयौ साई नाथ
बँगलिया मेरी ऐसी बनवइयौ साई नाथ2
जसिमें सारी उमर कटजाय जसिमें सारा बुढ़ापा कटजाय
बँगलिया मेरी ऐसी बनवइयौ साई नाथ

जहां बनाऊँ कूटी में साई वहीं धाम तेरा होवे
तेरे चरण की धूल उठाऊँ फरि दीवार बनाकर के
लता-पता से बँगला छाना साई ज़रा दया करके
दरवाज़े पर श्रद्धा लखिना2लखिना सबूरी कविाइ
बँगलिया मेरी ऐसी बनवैयौ साई नाथ

उस बँगले के अन्दर साई तेरा इक मन्दरि होवे
मन्दरि अन्दर मेरे साई की इक सुन्दर मूरत होवे
मन भावों का हार बनाऊँ तब इच्छा पूरी होवे
साँझ सवेरे उन भावों का तुमको हार पहनाऊँ
बँगलिया मेरी.....

भक्तभाव से भरा हुआ उस बँगले में कुनबा होवे
शमा तात्या हों संग में और भगत म्हालसापति होवे
भक्तमंडली वहां वरिजेऔर लक्ष्मी माई होवे
चारों पहर की होय आरती नति-नति दर्शन होय
बँगलिया मेरी ऐसी बनवैयौ साई नाथ..... ।

गुरूवार के रोज़ वहां साई तेरा भंडारा होवे
हलुआ पूरी और खचिड़ी का भोग वहां लगता होवे
साई के हाथों हांडी में भी कुछ पकता होवे
साई प्रेम से भोग लगावें जूठन मोहे मलि जाय
बँगलिया मेरी.....

चैत मास में नौवी के दनि उरस भरे मेला होवे
यशुदा नन्दन पालने झूलें राम जनम सुन्दर होवे
कवार मास में मने दशहरा तब उत्सव पूरा होवे
साई नाथ कचिले पालकी मौं भी नाचूँ गाऊँ
बँगलिया मेरी ऐसी बनवैयौ साई नाथ
जसिमें सारी उमर कटजाय जसिमें सारा बुढ़ापा कटजाय
ब । Bगलिया मेरी ऐसी बनवैयौ साई नाथ